

प्रेषक,

रवीन्द्र विक्रम सिंह,  
पीठासीन अधिकारी,  
कामशियल कोर्ट, झांसी।

सेवा में,

माननीय रजिस्ट्रार जनरल,  
माननीय उच्च न्यायालय  
इलाहाबाद।

**विषय: - मकान विक्रय के सम्बन्ध में।**

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि मेरे द्वारा पूर्व में दि०-15.07.2023 को एक प्रार्थना पत्र जनपद उन्नाव में स्थित मकान नं०-913 सिविल लाइन जिसके स्वामी मेरे पिता स्व० विजय विक्रम सिंह थे, को श्री ललित प्रताप सिंह को विक्रय करने के लिये अनुमति हेतु पत्र माननीय उच्च न्यायालय को भेजा था। जिसके सन्दर्भ में मुझसे उपरोक्त मकान का बैनामा व पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र मांगा गया था।

मेरे पिता के द्वारा उपरोक्त मकान श्री बृजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव स्वयं व मुख्तार आम, श्रीमती मन्जू श्रीवास्तव से दवामी पट्टे पर दि०-03.10.1986 को प्राप्त किया था। उपरोक्त पट्टा एक पंजीकृत अभिलेख है जो कि सब रजिस्ट्रार उन्नाव के कार्यालय में दि०-04.10.1986 को पंजीकृत हुआ। उपरोक्त अभिलेख के गवाहा श्री ऐनुलहक व लेखक श्री इन्तजार अहमद था।

उक्त पट्टे में बृजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव स्वयं व मुख्तार आम मन्जू श्रीवास्तव **प्रथम पक्ष** थे तथा मेरे पिता श्री विजय विक्रम सिंह **द्वितीय पक्ष** थे। उपरोक्त पट्टे के पृष्ठ -4 व 5 पर उक्त सम्पत्ति को बेचने का अधिकार मेरे पिता व उनके वारिसान को दिया गया था। उक्त पट्टा जिस भूमि के सन्दर्भ में था उसका आराजी नं०-5464 था। वर्तमान में प्लार्टिंग के उपरान्त उसका नं०-913 सिविल लाइन है तथा इसी नम्बर के सम्बन्ध में गृहकर जमा हो रहा है। मेरे पिता के द्वारा शुक्ला गंज, उन्नाव विकास प्राधिकरण से विधि अनुसार नक्शा पास कराकर उस पर दो मंजिला पक्का मकान का निर्माण कराया। मेरे पिता की मृत्यु दि०-24.06.2002 को हुई थी। उपरोक्त समस्त तथ्यों से सम्बन्धित अभिलेख में प्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया उपरोक्त समस्त प्रपत्र ग्रहण करके मुझे उक्त मकान जिसका की अब वर्तमान में मकान नं०-913 सिविल लाइन उन्नाव है, को श्री ललित प्रताप सिंह को विक्रय करने के सन्दर्भ में शीघ्र अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

आपका आभारी।

दि०-10.08.2023

भक्तिय

10.8.23

(रवीन्द्र विक्रम सिंह,  
पीठासीन अधिकारी,  
कामशियल कोर्ट, झांसी।)